

# ***Delton Cables Limited***

Regd office : 'Delton House, 4801, Bharat Ram Road 24, Darya Ganj, New Delhi - 110002 (INDIA)

Phone : 91-11-23273907

E-mail : dcl@deltoncables.com, Website : www.deltoncables.com

CIN : L31300DL 1964PL C004255

AN ISO 9001-2008 COMPANY

To,

February 13, 2025

**BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai - 400 001

**BSE Scrip Code: 504240**

**Sub: Submission of Copies of published Un-audited Financial Results for the quarter ended on December 31, 2024**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform you that the Company has published the Un-audited Financial Results for the quarter ended on December 31, 2024, in the following Newspapers on February 13, 2025:

- a. Mint (English)
- b. Haribhoomi (Hindi)

A copy of the newspaper advertisement is enclosed herewith.

Kindly take the same on record.

Thanking you,  
Yours faithfully

**For Delton Cables Limited**

**Jitender Kumar**  
**Company Secretary & Compliance Officer**

**Encl : as above**

## Jubilant Q3 profit drops 35%, hurt by rising costs

Reuters  
 feedback@livemint.com

India's Jubilant Foodworks reported a nearly 35% fall in quarterly profit on Wednesday, with Domino's Pizza franchise's margins dented by higher expenses amid accelerated store expansion and elevated food costs.

Jubilant reported a profit of ₹42.91 crore (\$4.94 million) for the quarter ended December, down from a profit of ₹65.709 crore a year ago.

Wary of persistently high inflation in rent and food costs, budget-conscious Indian consumers have been gravitating towards bargain deals.

Jubilant, like other quick service franchises in India, has launched value meals to raise footfall in its restaurants and rake in more orders via delivery apps. It launched smaller pizzas priced at around \$1 and lunch combinations for less than \$2. It has been waiving delivery fees on its app orders.

As of November, it had not raised prices on its items for at least two years, despite cost inflation, to gain market share. This aided top-line growth but profit margins suffered. Revenue from operations in Q3 rose about 56% to ₹25.51 billion.

Same-store sales increased 12.5% year-on-year at its Domino's restaurants in India. They fell 2.9% in the previous year. Average daily spend in older outlets rose 12.5% to ₹86,000. Expenses rose 59.3% fuelled by sequential store expansions and high wage and food costs, dragging core profit margin down 163 basis points to 18.7%.

The promoters of HT Media Ltd, which publishes Mint, and Jubilant Foodworks are closely related. There are, however, no promoter cross-holdings.

# US court puts on hold trial in Cognizant-L&T bribery case

Move follows US prez's executive order halting enforcement of Foreign Corrupt Practices Act

Varun Sood  
 varun.sood@livemint.com  
 BENGALURU

Less than 24 hours after US President Donald Trump signed an executive order halting prosecutions of Americans accused of bribing foreign government officials, a New Jersey court put on hold pre-trial proceedings in a six-year-old case involving Cognizant Technology Solutions Corp.

The court was to determine if two former executives of Cognizant routed illicit payments through Larsen & Toubro to Indian government officials. The US Department of Justice's case against former Cognizant chief operating officer Gordon Coburn and former chief legal officer Steven Schwartz, which is alleged to involve bribery, is among the first to face uncertainty after the new order signed by Trump on 10 February. "The court previously scheduled a proceeding for February 18. That will not go forward," Judge Michael E. Farbiarz ordered on Tuesday. "In light of the executive order issued yesterday by the President, the US shall state its position as to the upcoming trial."

Court documents showed, the case was to begin on 3 March and pre-trial proceedings on 18 February. An email to US DoJ seeking comment went unanswered, and an email to Coburn and Schwartz lawyers on Tuesday did not elicit a response.

Trump halted enforcement of the Foreign Corrupt Practices Act, which, since coming into effect in 1977, prohibited US nationals and firms from bribing foreign officials overseas. FCPA is a tool to crack down on unscrupulous business actors.

Halting the enforcement of the law puts international stability at risk, said at least one anti-corruption watchdog. "Clipping the wings of DoJ's enforcement of the FCPA delivers a major blow



The court was to determine if two former Cognizant executives routed illicit payments through L&T to Indian officials. MINT

to the fight against foreign bribery worldwide," Transparency International, the Berlin-based anti-corruption watchdog, said in a statement on Tuesday. "It risks undermining decades of progress in tackling cross-border corruption and puts international stability at risk. This pause will work to

three campuses in Chennai and Pune, a probe by the DoJ found. In 2019, Cognizant agreed to pay \$25 million to settle this case with the US authorities. However, the DoJ charged Coburn and Schwartz with approving the bribes, marking the start of the ongoing case. Coburn and Schwartz have denied

when some of the company's employees are alleged to have bribed Indian government officials in return for faster approvals to build Cognizant's office campuses in Chennai and Pune.

The DoJ probe states that it has emails detailing how the bribe payments were orchestrated, many of which were marked to L&T executives, including Subrahmanyan.

L&T and Subrahmanyan are not parties to the ongoing US probe against the former Cognizant executives. Both L&T and Subrahmanyan have denied any wrongdoing. Still, that has not stopped US officials from questioning Subrahmanyan. On 21 May 2018, Subrahmanyan was "formally interviewed" in Singapore by officials from the US Attorney's Office and the Federal Bureau of Investigation.

For an extended version of the story go to livemint.com

## Greenpac's review plea in HNGIL case

Neha Joshi  
 neha.joshi@livemint.com  
 MUMBAI

Sanitary ware and glass container manufacturer-AGI Greenpac sought a review of the Supreme Court's January ruling that quashed the approval of AGI's resolution plan for the bankrupt Hindustan National Glass & Industries Ltd (HNGIL), citing failure to get prior permission from the Competition Commission of India (CCI).

Apart from the review petition filed on Tuesday, Greenpac filed an application with the Kolkata bench of National Company Law Tribunal, seeking to restrain the committee of creditors (CoC) and the resolution professional of HNGIL from taking further action till the apex court decides on the review plea.

HNGIL, India's largest container glass manufacturer, was admitted into insolvency in October 2021 by NCLT. During the corporate insolvency process, AGI Greenpac, with a market cap of ₹5,000 crore,



The SC earlier quashed AGI Greenpac's resolution plan. MINT

and Bermuda's Independent Sugar Corp. vied for the firm. Both bid around ₹2,200 crore to acquire HNGIL. Both resolution plans required approval from the Competition Commission of India.

AGI requested a relaxation to get a CCI approval after the assent of CoC, which the RP granted. It filed a notice with the CCI on 27 September 2022 but due to high market share of the combined entity, CCI deemed the notice invalid and directed AGI to re-file it.

For an extended version of the story go to livemint.com

### CORRUPTION CHARGES

**THE US** bribery case against the former executives faces uncertainty after Trump's 10 Feb order

**FORMER** Cognizant CEO Gordon Coburn & chief legal officer Steven Schwartz are allegedly involved

**THE** case was to begin on 3 Mar, while pre-trial proceedings were to start on 18 February

**THE** firm allegedly paid \$3.64M in bribes via L&T for faster Chennai, Pune campus approvals

the advantage of unscrupulous business actors around the world who until now feared US criminal pursuits."

New Jersey-based Cognizant used L&T to pay \$3.64 million in bribes between 2012 and 2015 to secure faster approval to build the US company's

any wrongdoing. One fallout from these legal proceedings not taking place is on S.N. Subrahmanyan, the chair of the country's largest engineering and construction company. Subrahmanyan was the head of L&T's construction business

11 - 14 February 2025  
 Yashobhooni, Dwarka, New Delhi | India

## Attractions • Creations • Innovations @ India Energy Week 2025

**Smart Retail Zone | Hall No. 1**

- Watch automatic LPG cylinder dispensing in action
- Try the live UFill digital fueling system demonstration

**Visitor ENTRY FREE, register online.**

Connect with us: [i](#) [f](#) [t](#) [w](#) [h](#) [l](#) [i](#) [n](#) [d](#) [i](#) [a](#) [e](#) [n](#) [e](#) [r](#) [g](#) [y](#) [w](#) [e](#) [e](#) [k](#)

Visit [www.indiaenergyweek.com](http://www.indiaenergyweek.com) or scan the QR Code to know more.

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED (A Govt. of West Bengal Enterprise)							
Regd. Office : Vidyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata - 700 091 CIN : U40109WB2007SGC113473, Tel. No. : +91 (033) 2319 7209, www.wbsecl.in							
Extract from the Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Three months ended on 31.12.2024 (₹ in Lakh)							
Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended		Financial Year Ended	Quarter Ended		Financial Year Ended
		31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
1	Total Income from Operations	856311	813943	3336610	856311	813943	3336610
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(732)	4048	12412	(732)	4048	12412
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(732)	4048	12412	(732)	4048	12412
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(937)	3636	10851	(937)	3636	10851
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	1457	2417	5753	1457	2417	5753
6	Paid-up Equity Share Capital	427332	345343	355025	427332	345343	355025
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	62907	61381	79593	62907	61381	79593
8	Securities Premium Account	0	0	0	0	0	0
9	Net Worth	451880	370178	397648	451880	370178	397648
10	Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt	1705650	1758188	1543911	1705650	1758188	1543911
11	Outstanding Redeemable Preference Share	0	0	0	0	0	0
12	Debt Equity Ratio	1.94	2.19	2.03	1.94	2.19	2.03
13	Earnings Per Share of ₹ 10/- each (for Continuing and Discontinued Operations)						
	1. Basic & Diluted before extraordinary items & net movement of Regulatory Deferral account balance (₹) (not annualised)	1.41	0.39	(2.59)	1.41	0.39	(2.59)
	2. Basic & Diluted after extraordinary items & net movement of Regulatory Deferral account balance (₹) (not annualised)	(0.02)	0.13	0.30	(0.02)	0.13	0.30
14	Capital Redemption Reserve	0	0	0	0	0	0
15	Debt Redemption Reserve	22034	20367	20784	22034	20367	20784
16	Debt Service Coverage Ratio	0.74	0.64	0.98	0.74	0.64	0.98
17	Interest Service Coverage Ratio	1.32	1.21	1.46	1.32	1.21	1.46

Notes:  
 1. The above is an extract of the detailed format of the Statements of Limited Reviewed Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The Statements of Limited Reviewed Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's website [www.wbsecl.in](http://www.wbsecl.in) and on the website of Bombay Stock Exchange ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)).

2. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee of the Board of Directors in its meeting held on 12<sup>th</sup> February, 2025 and approved by the Board of Directors in its meeting held on the same day.

3. The Limited Reviewed Financial Results for the Quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2024 was carried out by the Statutory Auditor of the Company as required under Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditor of the Company, R. Gopal & Associates, Chartered Accountants, have issued Limited Reviewed Reports with unmodified opinion on the said Standalone and Consolidated Financial Results.

4. Total value of secured, redeemable, non-convertible bonds issued by the Company on private placement basis is Rs 100000 Lakhs. These securities are listed with Bombay Stock Exchange in Wholesale Debt Market.

5. Tariff order for the year 2024-25 and APR order for the year 2022-23 has been issued by WBERC on 06.03.2024 & 09.12.2024 respectively. Financial impact of the said Tariff orders and APR order has been considered in the Financial Statements of FY: 2024-25 (Q3).

6. The previous period's figures have been re-grouped / re-classified / re-measured wherever necessary to confirm current period's classification.

7. The Financial Statements of West Bengal Green Energy Development Corporation Limited (WBGEDCL), only Associate Company of WBSECL, has been considered for preparation of Consolidated Financial Statement based on management certificate obtained in this regard.

8. WBSECL is in process of assessing the compliance requirement with respect to the recently issued Electricity Distribution (Accounts and Additional Disclosure) Rules, 2024 ("Accounting Rules 2024") by the Ministry of Power. These rules specify that the requirement for recognition of revenue, provisioning of trade receivables and the additional disclosures needs to be incorporated in the Company's annual financial statements, if applicable. No impact of the rules is perceived by the management in this third quarter financial statement.

9. Ratios are calculated on annualized basis.

For West Bengal State Electricity Distribution Company Limited  
 Sd/-  
 (Santanu Basu)  
 Chairman and Managing Director

Place: Kolkata  
 Date: 12<sup>th</sup> February 2025  
**ICA- N 71(1)/2025**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**  
**PWD TENDER NOTICE**  
 4th Corrigendum to e-N.I.B. No. 02 of 2024-2025 of The Superintending Engineer & Project Director, Project Implementation Unit-I, circulated vide this office Memo No. 290-R/PIU-I, Dated: 27.11.2024 for the work "Construction of proposed bridge over river Muriganga including approach to connect Kachuberia Sagar Island with Kakdwip in the district of South 24 Parganas, West Bengal, through Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contract." Tender ID: 2024\_WBPWD\_774881.1. Pre Bid Meeting: 13.03.2025 at 2:00 P.M. Bid Submission Start Date: 21/03/2025 at 3:00 P.M. Bid submission closing date (online): 07/04/2025 upto 3:00 P.M. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: <http://wbenders.gov.in> Sd/- SE & PD, PIU-I, PWRD, GOVT. OF W.B.  
**ICA- T3059(1)/2025**

**Chart a course to clarity!**

Data rich, visual reporting with **Mint Plain Facts**  
 Read only on **mint**

Delton Cables Limited				
Regd. Office: Delton House 4801 Bharat Ram Road 24 Daryaganj New Delhi - 110002 Website: <a href="http://www.deltoncables.com">www.deltoncables.com</a> , E-mail: <a href="mailto:cs@deltoncables.com">cs@deltoncables.com</a> , CIN: L31300DL1964PLC004255				
Statement of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months period ended December 31, 2024 (Rs. in lakhs)				
Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Nine Months ended	Quarter ended
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
1	Total income from operations (net)	18,904.98	50,817.60	10,995.40
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	406.31	1,129.70	342.56
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	406.31	2,159.11	458.50
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	336.37	1,487.20	373.89
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	338.24	1,492.81	371.87
6	Equity share capital (Face Value of Rs.10/- each)	864.00	864.00	864.00
7	Earnings Per Share (before extraordinary items) (Face Value of Rs.10/- each)			
	(a) Basic (Rs.)	3.89	17.21	4.33
	(b) Diluted (Rs.)	3.89	17.21	4.33

Notes:  
 1) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and on Company's website ([www.deltoncables.com](http://www.deltoncables.com)).

2) The above result have been prepared in accordance with principle and procedures of Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified under section 133 of Companies Act, 2013.

3) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 11, 2025.

For and on behalf of the Board  
 Sd/-  
**Vivek Gupta**  
 (Managing Director)  
 DIN: 00035916

Place : Faridabad  
 Date : February 11, 2025

JUNIPER HOTELS LIMITED (Formerly known as JUNIPER HOTELS PRIVATE LIMITED) CIN: L55101MH1965PLC152863												
Registered Office: Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai 400 055. Email: <a href="mailto:compliance@juniperhotels.com">compliance@juniperhotels.com</a> ; Website: <a href="http://www.juniperhotels.com">www.juniperhotels.com</a>												
EXTRACT FROM THE UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024												
Particulars	STANDALONE						CONSOLIDATED					
	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended		
	December 31, 2024	September 30, 2024	December 31, 2023	December 31, 2024	December 31, 2023	December 31, 2024	September 30, 2024	December 31, 2023	December 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2024	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
Total Income	22,680.83	19,528.39	20,618.44	60,040.52	54,364.22	76,050.72	26,098.31	22,286.15	24,069.94	68,866.15	57,812.98	82,630.62
Profit / (loss) before tax	4,059.31	2,295.06	24.84	8,125.50	(4,626.30)	(4,111.50)	4,351.60	1,992.89	292.08	7,653.47	(4,361.85)	(3,674.83)
Profit / (loss) for the period	3,034.00	(1,939.48)	21.18	2,570.76	(2,635.57)	908.34	3,249.29	(2,782.38)	354.48	1,633.45	(2,295.73)	2,379.79
Total Comprehensive Income / (loss) for the period, net of tax	3,045.51	(1,901.53)	11.22	2,612.04	(2,622.55)	875.63	3,257.38	(2,743.99)	345.50	1,671.43	(2,281.73)	2,352.13
Paid-up equity share capital (Face value Rs. 10/- per share)	22,250.24	22,250.24	17,250.24	22,250.24	17,250.24	22,250.24	22,250.24	22,250.24	17,250.24	22,250.24	17,250.24	22,250.24
Other equity	-	-	-	-	-	2,39,582.61	-	-	-	-	-	2,43,276.38
Earnings / (loss) per equity share of face value of INR 10 each attributable to equity holders of the parent (EPS) Basic and Diluted (₹)	1.36*	(0.87)*	0.01*	1.16*	(1.71)*	0.56*	1.46*	(1.25)*	0.21*	0.73*	(1.49)*	1.46*
* Not Annualised												

Notes to Unaudited Financial Results  
 1. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 as amended ("Listing Regulations"). The full format of the unaudited financial results are available on the Stock Exchange websites [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on Company's website [www.juniperhotels.com](http://www.juniperhotels.com).

For and on behalf of the Board of directors of Juniper Hotels Limited  
 Sd/-  
**Arun Kumar Saraf**  
 Chairman and Managing Director  
 DIN: 00339772

Place: Mumbai  
 Date: February 11, 2025

**MAKE YOUR MONDAY MORNING PLAYFUL**

Catch the latest section of **Problematics** to solve a set of intriguing puzzles.

**HAT** FIRST VOICE. LAST WORD.

[www.hindustantimes.com](http://www.hindustantimes.com) [t.me/hindustantimes](https://t.me/hindustantimes) [www.hindustantimes.com](https://www.hindustantimes.com)

